

हाथरस केस की पीड़िता को उसके भाई ने ही मारा

By : Editor Published On : 7 Oct, 2020 02:13 PM IST



हाथरस . हाथरस केस के आरोपियों के वकील एपी सिंह ने पीड़िता के परिवार पर सनसनीखेज आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि पीड़िता को उसके भाई ने ही मारा है. एपी सिंह ने साथ ही यह भी कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है. एक हफ्ते के बाद नेताओं के पीड़िता के परिवार से मुलाकात करने के उपरांत इस मामले में रेप का मुकदमा दर्ज किया गया. एक निजी चैनल से बात करते हुए एपी सिंह ने कहा कि उनकी आरोपियों के परिजनों से बात हुई है. उन्होंने यह भी बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि भी नहीं हुई है.

दरअसल, कल खबर सामने आई थी कि निर्भया मामले में जिन दो वकीलों ने केस की पैरवी कोर्ट में की थी वे एक बार फिर आमने-सामने हो सकते हैं. निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा दिलाने वाली अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा (Advocate Samridhhi Kushwaha) ने हाथरस कांड की पीड़िता का केस लड़ने की बात कही है. वहीं, निर्भया कांड के दोषियों का केस लड़ने वाले अधिवक्ता एपी सिंह से हाथरस के आरोपियों के परिजनों ने संपर्क किया है.

मुकदमा लड़ने के लिए आग्रह किया है

मंगलवार को अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा था कि आरोपियों के परिवार ने उनसे मुकदमा लड़ने के लिए आग्रह किया है. इसके अलावा एपी सिंह ने कहा था कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री मानवेंद्र सिंह ने भी उनसे हाथरस मामले में आरोपियों का मुकदमा लड़ने की बात कही है. मानवेंद्र सिंह द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पैसे इकट्ठा कर वकील एपी सिंह की फीस भरेगी.

सवर्ण समाज को बदनाम किया जा रहा है

इस पत्र में कहा गया है कि हाथरस केस के माध्यम से एससी-एसटी एक्ट का दुरुपयोग करके सवर्ण समाज को बदनाम किया जा रहा है, जिससे खासतौर से राजपूत समाज बेहद आहत हुआ है. ऐसे में इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए मुकदमे की पैरवी आरोपी पक्ष की तरफ से एपी सिंह के द्वारा कराने का फैसला किया गया है.

केस ट्रान्सफर करने की मांग

पीड़िता के परिवार की तरफ से निर्भया मामले से चर्चा में आई अधिवक्ता सीमा कुशवाहा को नियुक्त किया गया है. उन्होंने वकालतनामा पर हस्ताक्षर भी कर दिया है. सीमा कुशवाहा ने कहा है कि वह जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर

मुकदमे की सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग करेंगी. उन्होंने बताया कि जब तक मामला उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं किया जाएगा, हाथरस की बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा. आरोपियों को सजा दिलाने के लिए वह पूरा प्रयास करेंगी. उन्हें पूरी उम्मीद है कि एक दिन हाथरस की बेटी को न्याय मिलेगा और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी. PLC.

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/the-victim-of-hathras-case-was-killed-by-her-brother/>



12th year of news and views excellency

Committed to truth and impartiality

Copyright © 2009 - 2019 International News and Views Corporation. All rights reserved.
